



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 28 नवम्बर, 2022 / 07 मार्गशीर्ष 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला—171002, 26 नवम्बर, 2022

संख्या: गृह-बी(इ)4-2/2019-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 के नियम 12 के उप-नियम (2) के साथ पठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई का परीक्षण करने के पश्चात और सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई की रिपोर्ट का मूल्यांकन करने हेतु गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर मौजा ठोडो, तहसील और जिला सोलन हिमाचल प्रदेश खसरा नं० 47/1(0-02-28), 48(0-00-09), 49(0-00-94), 50(0-04-85), 51(0-00-04) और 52(0-01-84) से समाविष्ट 00-10-04 हैक्टेयर (1004 वर्ग मीटर) भूमि का सोलन में ज्यूडिशियल (न्यायिक) न्यायालय परिसर का, लोकहित में, सन्निर्माण करने के लिए अर्जन करने हेतु संस्तुति करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (गृह)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No. Home-B(E)4-2/2019-II, dated 26-11-2022 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].*

## HOME DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 26th November, 2022*

**No. Home-B(E)4-2/2019-II.**—In exercise of the powers conferred by sub-section(3) of Section 8 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), read with sub-rule (2) of Rule 12 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015, the Governor, Himachal Pradesh, after examination of the Social Impact Assessment Report and on the recommendations of the Expert Group constituted to evaluate the report of Social Impact Assessment Unit, is pleased to recommend the land measuring 00-10-04 hect.(1004 Sq. meters), comprising of Khasra Nos. 47/1(0-02-28), 48(0-00-09), 49(0-00-94), 50(0-04-85), 51(0-00-04) & 52(0-01-84) at Mauja Thodo, Tehsil and District Solan, Himachal Pradesh, for acquisition to construct the Judicial Court's Complex at Solan, in the public interest.

By order,

Sd/-  
Principal Secretary (Home).

जल शक्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 नवम्बर, 2022

**संख्या: आईपीएच(ए)2(बी)1-3/2018.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से,

इस विभाग की अधिसूचना संख्या आईपीएच(ए)1ए(3)-1/2014, तारीख 06-12-2019 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग-1 (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग-1(राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. उपाबन्ध—“क” का संशोधन.**—(1) हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल) वर्ग-1 (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 के उपाबन्ध—“क” में:-

(i) स्तम्भ संख्या 4, के सामने विद्यमान उपाबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैंड :

हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाईम स्केल से संलग्न पे मैट्रिक्स का स्तर-18.”

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां :

“हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत।”

(ii) स्तम्भ संख्या 7, के सामने विद्यमान उपाबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“अनिवार्य अर्हता(ए):

(क) ए0आई0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0 द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक उपाधि रखता हो या इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) कलकता, इंस्टिट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स (इंडिया), लुधियाना, पंजाब से 31-05-2013 को या उससे पूर्व ए0एम0आई0ई0 में नामांकित हो ।

(ख) वांछनीय अर्हताएं :

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।”

(iii) स्तम्भ संख्या 11 (i), (ii), (iii), (iv), (v) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(i) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, और निरर्हित कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) में से जिनका पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पंद्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो .45 प्रतिशत

(ii) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), जिन्होंने ए0आई0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0 द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/विश्वविद्यालय से बी0ई0/बी0टेक0 (सिविल) या

ए0एम0आई0ई0 की उपाधि प्राप्त की हो या कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में सेवा के दौरान जो इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) कलकता, इंस्टिट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स (इंडिया), लुधियाना, पंजाब से 31-05-2013 को या उससे पूर्व ए0एम0आई0ई0 में नामांकित हुआ हो, इसके साथ जिसका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो .10 प्रतिशत

(iii) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), जिसके पास ए0आई0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0 द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/विश्वविद्यालय से बी0ई0/बी0टेक0 (सिविल) की उपाधि हो या जो कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के रूप में नियुक्ति के समय इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) कलकता, इंस्टिट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स (इंडिया) लुधियाना, पंजाब से 31-05-2013 को या उससे पूर्व ए0एम0आई0ई0 में नामांकित हो तथा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो .15 प्रतिशत

(iv) योजना अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने मैट्रिक पास की हो और जो ड्राफ्ट्समैनशिप में मान्यता प्राप्त दो वर्ष का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र रखते हों और जिनका वृत्त मुख्य प्रारूपकार और योजना अधिकारी के रूप में संयुक्ततः तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो । जिसमें से योजना अधिकारी के रूप में की गई एक वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी । .04 प्रतिशत

(v) प्रारूपकार काडर के योजना अधिकारी (अधिकारियों)/कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने ए0आई0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0 द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक उपाधि अर्जित की हो या इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) कलकता, इंस्टिट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स (इंडिया) लुधियाना, पंजाब से 31-05-2013 को या उससे पूर्व नामांकित ए0एम0आई0ई0 से उपाधि प्राप्त की हो तथा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो .01 प्रतिशत

(iv) स्तम्भ संख्या 15-क (II) और 15-क (VII) (क) के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) को ₹ 33,660/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम संदत्त की जाएगी (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) ।”

**3. उपाबन्ध-“ख” का संशोधन.**—उपाबन्ध-“क” के क्रम संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :-प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 33,660/- प्रतिमाह होगी (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) ।

आदेश द्वारा,

अमिताभ अवस्थी,  
सचिव (जल शक्ति)।

*[Authoritative English text of this department Notification No. IPH(A)2(B)1-3/2018 dated 25-11-2022 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].*

## JAL SHAKTI VIBHAG

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 25th November, 2022*

**No. IPH(A)2(B)1-3/2018.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules, further to amend the Himachal Pradesh, Department of Irrigation & Public Health, Assistant Engineer (Civil), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2019 notified *vide* this Department notification No. IPH (A)1A(3)-1/2014 dated 06-12-2019, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(i) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Jal Shakti Vibhag, Assistant Engineer (Civil), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2022.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure-“A”.**—In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh, Department of Irrigation & Public Health, Assistant Engineer (Civil), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2019:—

(i) For the existing provisions against column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

“(i) **Pay Band for regular incumbent(s):**

“Level 18 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.”

(ii) **Emoluments for Contract Employee(s):**

“60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.”

(ii) For the existing provisions against column No. 7, the following shall be substituted, namely:—

### “ESSENTIAL QUALIFICATIONS:

(a) Must possess regular full time degree in Civil Engineering from an Institute/ University duly approved/ recognized by the AICTE/UG or AMIE enrolled upto on or before 31-05-2013 from Institute of Engineers (India), Calcutta and Institute of Civil Engineers (India), Ludhiana Punjab.

### DESIRABLE QUALIFICATIONS:

(b) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in peculiar conditions prevailing in the Pradesh.”

(iii) For the existing provisions against column No. 11 (i), (ii), (iii), (iv), (v), the following shall be substituted, namely:—

- (i) Junior Engineer(s) (Civil) with 07 (seven) years regular or regular combined with continuous *ad hoc* service rendered, if any, in the grade and unqualified Junior Engineer(s) (Civil) with 15 (fifteen) years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any, in the grade . .45%
- (ii) Junior Engineer (Civil) who acquire BE/ B. Tech. (Civil) or AMIE degree from an Institute/University duly approved/ recognized by the AICTE/UGC or AMIE enrolled upto on or before 31-05-2013 from Institute of Engineers (India), Calcutta and Institute of Civil Engineers (India), Ludhiana Punjab during service as Junior Engineer (Civil) with three years regular or regular combined with continuous *adhoc* service rendered, if any, in the grade after acquiring such qualification . .10%
- (iii) Junior Engineer (Civil) who possess BE/B.Tech. (Civil) or AMIE degree from an Institute/University duly approved/ recognized by the AICTE/UGC or AMIE enrolled upto on or before 31-05-2013 from Institute of Engineers (India), Calcutta and Institute of Civil Engineers (India), Ludhiana Punjab at the time of appointment as Junior Engineer (Civil) with three years regular or regular combined with continuous *ad hoc* service rendered, if any, in the grade. . .15%
- (iv) Planning Officer(s) who have passed Matriculation and possess a recognized two years Diploma/Certificate in Draughtsmanship and having 03 (three) years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service rendered, if any, as Circle Head Draughtsman and Planning Officer combined which include one year essential service as Planning Officer . .04%
- (v) Planning Officer(s)/Official(s) of Draughtsman cadre who acquire a full time degree in Civil Engineering from an Institute/University duly approved/ recognized by AICTE/UGC or AMIE degree enrolled on or before 31-05-2013 from the Institute of Engineers (India), Calcutta and Institute of Civil Engineers (India), Ludhiana, Punjab, during service with 03 (three) years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any, in the grade after acquiring such qualification . .01%
- (vi) For the existing provisions against column No. 15-A(II) & 15-A (VII) (a), the following shall be substituted, namely:—

“The Assistant Engineer (Civil) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 33,660/-P.M. (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the correspondence cadre).”

**3. Amendment of Annexure-“B”.**—For the existing provisions against Sr. No. 2 of Annexure-B, the following shall be substituted, namely:—

“The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹33,660/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).”

By order,

AMITABH AVASTHI,  
Secretary (Jal Shakti).

## निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 28 नवम्बर, 2022

**संख्या: 3-28/99-ई.एल.एन.-5784.**—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/एकजिट/2022/एसडीआर/खण्ड-II, दिनांक 19 नवम्बर, 2022, जो कि हिमाचल प्रदेश व गुजरात के विधान सभा निर्वाचन 2022 तथा उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश के उप-निर्वाचनों में किसी भी प्रिट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी प्रकार के एकजिट पोल का आयोजन तथा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रचार-प्रसार करने पर 12 नवम्बर, 2022 (शनिवार) को प्रातः 8.00 बजे से 05 दिसम्बर, 2022 (सोमवार) सायं 6.30 बजे तक प्रतिबंध होगा तथा मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा, को हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में जारी आयोग की पूर्व अधिसूचना संख्या 576/एकजिट/2022/एसडीआर/खण्ड-I, दिनांक 10-11-2022 के अधिक्रमण में अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

मनीष गर्ग,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोका रोड़, नई दिल्ली -110001

अधिसूचना

दिनांक: 19 नवम्बर, 2022

**संख्या: 576/एकजिट/2022/एसडीआर/खण्ड-II.**—यतः, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों की अनुसूची की घोषणा कर दी गई है और घोषित कार्यक्रम के अनुसार इन दोनों राज्यों में आम चुनावों की अधिसूचना नीचे उल्लिखित तारीखों पर जारी की गई थी:

1. 17-10-2022 को हिमाचल प्रदेश, एवं
2. 05-11-2022 और 10-11-2022 को गुजरात

2. यतः, चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/83/2022 दिनांक 05-11-2022 के तहत उत्तर प्रदेश के 21-मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उड़ीसा के 01-पदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के 21-सरदारशहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के 93-कुड़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के 80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश के 37-रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है एवं प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/87/2022 दिनांक 08-11-2022 के तहत उत्तर प्रदेश के 15-खतौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है।

3. यतः, चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/88/2022 दिनांक 10-11-2022 के तहत उत्तर प्रदेश के 37-रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया है।

4. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र.अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि “(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थातः—

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;

(ख) किसी उप-निर्वाचन या एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में वह अवधि मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी:

परन्तु भिन्न भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।”

5. यतः, आयोग ने 12-11-2022 (शनिवार) को पूर्वाह्न 8.00 बजे से 05-12-2022 (सोमवार) को अपराह्न 5.30 बजे तक के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया था, जिसके दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित था।

6. अब, इसलिए, आयोग के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/83/2022 दिनांक 05-11-2022 एवं संख्या ईसीआई/पीएन/87/2022 दिनांक 08-11-2022 द्वारा उप-निर्वाचन की घोषणा के दृष्टिगत, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, अधिसूचना संख्या 576/एक्जिट/2022/एसडीआर/खण्ड- I, दिनांक 10-11-2022 के अधिक्रमण में 12-11-2022 (शनिवार) को पूर्वाह्न 8.00 बजे से 05-12-2022 (सोमवार) को अपराह्न 6.30 बजे तक के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर्युक्त हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं उपर्युक्त उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48



घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,

एस.बी. जोशी,  
प्रधान सचिव।

-----

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001**

NOTIFICATION

*Dated: the 19th November, 2022*

**No. 576/EXIT/2022/SDR/Vol.-II.**—Whereas, the Election Commission has already announced the program for General Elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat as per the schedule announced and Notifications for the General Elections in these two States were issued on the dates mentioned below:—

- (i) Himachal Pradesh on 17-10-2022, and
- (ii) Gujarat on 05-11-2022 and 10-11-2022

2. Whereas, the Election Commission *vide* its Press Note No. ECI/PN/83/2022 dated 05-11-2022, has announced schedule for **bye-elections in 21-Mainpuri Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 01-Padampur Assembly Constituency of Odisha, 21-Sardarshahar Assembly Constituency of Rajasthan, 93-Kurhani Assembly Constituency of Bihar, 80-Bhanupratappur (ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh & 37-Rampur Assembly Constituency of Uttar Pradesh** and *vide* its Press Note No. ECI/PN/87/2022 dated 08-11-2022, has announced schedule for **bye-election in 15-Khatauli Assembly Constituency of Uttar Pradesh.**

3. Whereas, the Election Commission *vide* its Press Note No. ECI/PN/88/2022 dated 10-11-2022, has revised the schedule of **bye-election in 37-Rampur Assembly Constituency of Uttar Pradesh.**

4. Whereas, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) specifies that “(1) *No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.*

(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely:—

- (a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories;
- (b) In case of a bye-election or a number of bye-elections held together, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on and from the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll;

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll:

(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both.”

5. Whereas, the Commission had notified the period between **8.00 A.M. on 12-11-2022 (Saturday) and 5.30 P.M. on 05-12-2022 (Monday)** as the period during which conducting any Exit Poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current General Elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat; were prohibited.

6. Now, therefore, in view of announcement of bye election *vide* **Commission's Press Note No. ECI/PN/83/2022 dated 05-11-2022 and No. ECI/PN/87/2022 dated 08-11-2022**, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2) of the said Section, **in supersession of its notification No. 576/EXIT/2022/SDR/Vol.I, dated 10-11-2022**, hereby notifies the period between **8.00 A.M. on 12-11-2022 (Saturday) and 6.30 P.M. on 05-12-2022 (Monday)** as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll in connection with the **aforesaid General elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat and abovementioned bye-elections**, shall be prohibited.

7. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter, including results of any Opinion Poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in connection with the **aforesaid General elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat and abovementioned bye-elections**.

By order,

S. B. JOSHI,  
*Principal Secretary.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, the 3rd August, 2021*

**No. 11-1/85(Lab)ID/2021-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Jagdeep Chand s/o Shri Desh Raj, r/o V.P.O. Mainjha, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P. and the Proprietor, M/s New Prem Bus Service, V.P.O. Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. on the issue of alleged illegal termination from services during March, 2020.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Labour Inspector-*cum*-Conciliation Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P., he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has formed an opinion and decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers of appropriate Government vested in me *vide* Himachal Pradesh Government Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P. constituted under Section 7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:—

“Whether the termination of services of Shri Jagdeep Chand s/o Shri Desh Raj, r/o V.P.O. Mainjha, Tehsil Palampur, District Kangra, H.P. by the Proprietor, M/s New Prem Bus Service, V.P.O. Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. during March, 2020 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer?”

Sd/-  
Joint Labour Commissioner.

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, the 15th March, 2022*

**No. 11-3/93(Lab)ID/2022-Kullu.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Gulaba Ram s/o Shri Dandu Ram, r/o Village Banoun, P.O. Kapahi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. and the General Manager, M/s Malana Power Company Limited, Village Chowki, P.O. Jari, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P. on the issue of alleged correction in his date of birth in office record as 22-05-1965 instead of 24-05-1962.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Labour Inspector-*cum*-Conciliation Officer, Kullu, District Kullu, H.P., he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has formed an opinion and decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers of appropriate Government vested in me *vide* Himachal Pradesh Government Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P. constituted under Section 7 of Act *ibid*, on the following issue/ issues for legal adjudication:—

“Whether the demand raised by Shri Gulaba Ram s/o Shri Dandu Ram, r/o Village Banoun, P.O. Kapahi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. *vide* demand notice dated 20-08-2021 and rejoinder dated 08-12-2021 (copies enclosed) regarding correction in his date of birth in the office record maintained by the General Manager, M/s Malana Power Company Limited, Village Chowki, P.O. Jari, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P. as 22-05-1965 instead of 24-05-1962 (as alleged by workman) is legal and justified? If yes, what relief of service benefits the above worker is entitled to from the above employer/management? If not, what are its effects?”

Sd/-

*Joint Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, the 14th September, 2021*

**No. 11-1/85(Lab)ID/2021-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Gulshan Kumar s/o Shri Balwant Kumar, r/o V.P.O. Hatwas, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. and (i) The Director, M/s Universal Training & Research Institute, UTRI Complex, Luxmi Bhawan, North Oak Sanjauli, Shimla, H.P. (Contractor), (ii) The Executive Engineer, H.P.S.E.B.L., Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. (Principal Employer) on the issue of illegal termination from services *w.e.f.* 28-04-2021.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Labour Inspector-*cum*-Conciliation Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P., he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has formed an opinion and decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers of appropriate Government vested in me *vide* Himachal Pradesh Government Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P. constituted under Section 7 of Act *ibid*, on the following issue/ issues for legal adjudication:—

“Whether the termination of services of Shri Gulshan Kumar s/o Shri Balwant Kumar, r/o V.P.O. Hatwas, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. *w.e.f.* 28-04-2021 by (i) the Director, M/s Universal Training & Research Institute, UTRI Complex, Luxmi Bhawan, North Oak Sanjauli, Shimla, H.P. (Contractor), (ii) The Executive Engineer, H.P.S.E.B.L., Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. (Principal Employer), without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employers/management?”

Sd/-

*Joint Labour Commissioner.*

**LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, the 25th February, 2021*

**No. 11-1/85(Lab)ID/2021-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Gulshan Walia w/o Shri Om Prakash Walia, r/o V.P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. and the Proprietor, M/s New Prem Bus Service, V.P.O. Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. on the issue of alleged illegal termination from services during March, 2020.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Labour Officer-*cum*-Conciliation Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P., he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has formed an opinion and decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers of appropriate Government vested in me *vide* Himachal Pradesh Government Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P. constituted under Section 7 of Act *ibid*, on the following issue/ issues for legal adjudication:—

“Whether the termination of services of Gulshan Walia w/o Shri Om Prakash Walia, r/o V.P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P. by the Proprietor, M/s New Prem Bus Service, V.P.O. Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. during March, 2020 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer?”

Sd/-

*Deputy Labour Commissioner.***LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, the 21st October, 2021*

**No. 11-23/84(Lab)ID/2021-Una.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Gurmeet Singh s/o Shri Prem Singh, r/o V.P.O. Makri, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. and the Factory Manager/Occupier, M/s Biozenta Life Sciences, V.P.O. Bela Bathri, Tehsil Haroli, District Una, H.P. on the issue of alleged illegal termination from services *w.e.f.* 07-06-2021.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Labour Inspector-*cum*-Conciliation Officer, Tahliwal, District Una, H.P., he tried his level best to

settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has formed an opinion and decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers of appropriate Government vested in me *vide* Himachal Pradesh Government Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P. constituted under Section 7 of Act *ibid*, on the following issue/ issues for legal adjudication:-

“Whether the termination of services of Shri Gurmeet Singh s/o Shri Prem Singh, r/o V.P.O. Makri, Tehsil Shri Naina Deviji, District Bilaspur, H.P. *w.e.f.* 07-06-2021 by the Factory Manager/Occupier, M/s Biozenta Life Sciences, V.P.O. Bela Bathri, Tehsil Haroli, District Una, H.P., without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer/management?”

Sd/-  
Joint Labour Commissioner.

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, the 18th December, 2021*

**No. 11-5/99(Lab)ID/2021-Chamba.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Hanso s/o Late Shri Shambhu, r/o Village Kihar (Trigluni), P.O. Kihar, Tehsil Salooni, District Chamba, H.P. and the Divisional Forest Officer, Churah Forest Division, Salooni, District Chamba, H.P. on the issue of alleged illegal time to time termination from services during year, 1994-95 to year, 2018.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Labour Officer-*cum*-Conciliation Officer, Chamba, District Chamba, H.P., he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has formed an opinion and decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers of appropriate Government vested in me *vide* Himachal Pradesh Government Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P. constituted under Section 7 of Act *ibid*, on the following issue/ issues for legal adjudication:—

“Whether the time to time termination of services/giving fictional breaks in the services of Shri Hanso s/o Late Shri Shambhu, r/o Village Kihar (Trigluni), P.O. Kihar, Tehsil Salooni, District Chamba, H.P. by the Divisional Forest Officer, Churah Forest Division, Salooni, District Chamba, H.P. during year, 1994-95 to year, 2018 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer?”

Sd/-

*Joint Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, the 5th October, 2021*

**No. 11-23/84(Lab)ID/2021-Una.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Hardeep Singh s/o Shri Sohan Singh, r/o Village Sauwal (Heera Nagar), P.O. Dulehar, Tehsil Haroli, District Una, H.P. and the Managing Director/Occupier, M/s Cozy Touch Polyfoams (I) Private Limited, Village Heer Thada (Laluwal), P.O. Bidherwal, Tehsil Haroli, District Una, H.P. on the issue of alleged termination from services during year, 2020.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Labour Inspector-cum-Conciliation Officer, Tahliwal, District Una, H.P., he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has formed an opinion and decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers of appropriate Government vested in me *vide* Himachal Pradesh Government Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P. constituted under Section 7 of Act *ibid*, on the following issue/ issues for legal adjudication:—

“Whether the termination of services of Shri Hardeep Singh s/o Shri Sohan Singh, r/o Village Sauwal (Heera Nagar), P.O. Dulehar, Tehsil Haroli, District Una, H.P. during year, 2020 by the Managing Director/Occupier, M/s Cozy Touch Polyfoams (I) Private Limited, Village Heer Thada (Laluwal), P.O. Bidherwal, Tehsil Haroli, District Una, H.P., without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer/management?”

Sd/-

*Joint Labour Commissioner.*

**LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT***CORRIGENDUM**Shimla-171001, the 27th December, 2021*

**No. 11-1/95(Lab)ID/2019/Kinnaur/Dolkerna.**—Whereas, an alleged industrial dispute exists between Ms. Dolekerna w/o Shri Arvind Kumar, r/o V.P.O. Dhankhar, Tehsil Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. and the Executive Engineer, H.P.P.W.D., B & R Division Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.

Whereas, a reference has been made to the Ld. Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P. *vide* notification of even No. dated 28-03-2019 for legal adjudication. However, inadvertently the correct facts could not be mentioned about the time to time termination of the services of the workman in the said notification. Therefore, the time to time termination of services of the workman may be read as “during the year, 2001 to year, 2016 and final termination during the year, 2016” instead of “during October, 2016” as alleged by workman.

Sd/-

*Joint Labour Commissioner.***LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT***CORRIGENDUM**Shimla-171001, the 27th December, 2021*

**No. 11-1/95(Lab)ID/2019/Kinnaur/Dolma Zangmo.**—Whereas, an alleged industrial dispute exists between Ms. Dolma Zangmo w/o Shri Sher Singh, r/o V.P.O. Dhankhar, Tehsil Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P. and the Executive Engineer, H.P.P.W.D., B & R Division Kaza, District Lahaul & Spiti, H.P.

Whereas, a reference has been made to the Ld. Labour Court-cum-Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P. *vide* notification of even No. dated 28-03-2019 for legal adjudication. However, inadvertently the correct facts could not be mentioned about the time to time termination of the services of the workman in the said notification. Therefore, the time to time termination of services of the workman may be read as “during the year, 2001 to year, 2016 and final termination during the year, 2016” instead of “during December, 2016” as alleged by workman.

Sd/-

*Joint Labour Commissioner.*



**LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, the 28th August, 2021*

**No. 11-1/85(Lab)ID/2021-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Gajay Kumar s/o Shri Shri Sher Singh, r/o Village Nee, P.O. Draman, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra, H.P. and the Proprietor, M/s New Prem Bus Service, V.P.O. Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. on the issue of alleged illegal termination from services *w.e.f.* 01-04-2018.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Labour Inspector-*cum*-Conciliation Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P., he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has formed an opinion and decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers of appropriate Government vested in me *vide* Himachal Pradesh Government Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P. constituted under Section 7 of Act *ibid*, on the following issue/ issues for legal adjudication:—

“Whether the termination of services of Shri Gajay Kumar s/o Shri Shri Sher Singh, r/o Village Nee, P.O. Draman, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra, H.P. by the Proprietor, M/s New Prem Bus Service, V.P.O. Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. *w.e.f.* 01-04-2018 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer?”

Sd/-

*Joint Labour Commissioner.***LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-171001, the 11th June, 2021*

**No. 11-1/98(Lab)ID/2021-Hamirpur.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Gaurav Katoch s/o Shri Kultar Chand, r/o Ward No.-1, Chaubata Mohalla, V.P.O. Sujanpur Tihra, Tehsil Sujanpur Tihra, District Hamirpur, H.P. and (i) The Employer/Nodal Officer, M/s Link Utsav Ventures Private Limited, F-119, Maya Puri, Industrial Area, Phase, New Delhi, (ii) The State Head, M/s Rojمرت Private Limited, Near RTO Office, Dharamshala, District Kangra, H.P. on the issue of his alleged illegal termination from services during May, 2020.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Labour Inspector-*cum*-Conciliation Officer, Hamirpur, District Hamirpur, H.P., he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has formed an opinion and decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers of appropriate Government vested in me *vide* Himachal Pradesh Government Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P. constituted under Section 7 of Act *ibid*, on the following issue/ issues for legal adjudication:—

“Whether the termination of services of Shri Gaurav Katoch s/o Shri Kultar Chand, r/o Ward No.-1, Chaubata Mohalla, V.P.O. Sujanpur Tihra, Tehsil Sujanpur Tihra, District Hamirpur, H.P. during May, 2020 by (i) The Employer/Nodal Officer, M/s Link Utsav Ventures Private Limited, F-119, Maya Puri, Industrial Area, Phase, New Delhi, (ii) The State Head, M/s Rojmerta Private Limited, Near RTO Office, Dharamshala, District Kangra, H.P., without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer/Management?”

Sd/-  
Joint Labour Commissioner.

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, the 10th June, 2022*

**No. 11-23/84(Lab)ID/2022-Una.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between the General Secretary, Workers Avm Karamchari Union, Luminous Power Technologies, Unit No.-1, Gagret, Tehsil Amb, District Una, H.P. and the Occupier/Factory Manager, M/s Luminous Power Technologies Private Limited, Unit-1, Gagret, Tehsil Amb, District Una, H.P. on the issue of 14 demands raised *vide* demand notice dated 30-08-2019.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Labour Officer-*cum*-Conciliation Officer, Una, District Una, H.P., he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has formed an opinion and decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers of appropriate Government vested in me *vide* Himachal Pradesh Government Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial

Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P. constituted under Section 7 of Act *ibid*, on the following issue/ issues for legal adjudication:—

“Whether demands No. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 and 12 raised *vide* demand notice dated 30-08-2019 (**copy enclosed**) by the General Secretary, Workers Avm Karamchari Union, Luminous Power Technologies, Unit No.-1, Gagret, Tehsil Amb, District Una, H.P. to be fulfilled by the Occupier/Factory Manager, M/s Luminous Power Technologies Private Limited, Unit-1, Gagret, Tehsil Amb, District Una, H.P., are legal and justified? If yes, what monetary benefits, and any other relief the concerned workers are entitled to from above management /employer?”

Sd/-

*Joint Labour Commissioner.*

## LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-171001, the 3rd August, 2021*

**No. 11-1/85(Lab)ID/2021-Kangra.**—It appears to the undersigned that an industrial dispute exists between Shri Gopal Krishan s/o Shri Amar Singh, r/o Village Kot Kwala, P.O. Jamnabad, Tehsil & District Kangra, H.P. and the Proprietor, M/s New Prem Bus Service, V.P.O. Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. on the issue of alleged illegal termination from services during March, 2020.

As per the report under Section 12(4) of the Industrial Disputes Act, 1947 submitted by the Labour Inspector-*cum*-Conciliation Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P., he tried his level best to settle the dispute during conciliation proceedings but could not succeed. The report so received has been considered by the undersigned and as per power vested under sub-section 5 of Section 12 of the Act *ibid*, the undersigned has formed an opinion and decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/ Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers of appropriate Government vested in me *vide* Himachal Pradesh Government Notification No. Shram (A) 4-9/2006-IV-Loose, dated 15th February, 2014 and as per power vested under sub-section 1 of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) this industrial dispute is referred to the Labour Court/Industrial Tribunal, Kangra at Dharamshala, District Kangra, H.P. constituted under Section 7 of Act *ibid*, on the following issue/issues for legal adjudication:—

“Whether the termination of services of Shri Gopal Krishan s/o Shri Amar Singh, r/o Village Kot Kwala, P.O. Jamnabad, Tehsil & District Kangra, H.P. by the Proprietor, M/s New Prem Bus Service, V.P.O. Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. during March, 2020 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified? If not, what amount of back wages, seniority, past service benefits and compensation the above worker is entitled to from the above employer?”

Sd/-

*Joint Labour Commissioner.*

**ब अदालत अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा संख्या :

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

श्री मनोहर चन्द पुत्र श्री विशम्बर नाथ, निवासी गांव मंदरेरा, डाकघर कोठी, उप-तहसील चढ़ियार,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री मनोहर चन्द पुत्र श्री बिशम्बर नाथ, निवासी गांव मंदरेरा, डाकघर कोठी, उप-तहसील चढ़ियार,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम स्कूल  
प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड में सही नाम मनोहर चन्द दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मंदरेरा में इंतकाल  
तस्दीक करते समय उसका नाम मनोहर लाल दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक नाम राजस्व अभिलेख  
महाल मंदरेरा में सही नाम श्री मनोहर चन्द उर्फ मनोहर लाल पुत्र श्री विशम्बर नाथ, निवासी गांव मंदरेरा,  
उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्ट्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है  
कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-11-2022 को अधोहस्ताक्षरी की  
अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में  
एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 16-11-2022 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा संख्या : 13/2022

तारीख मरजुआ : 29-08-2022

तारीख पेशी : 19-12-2022

श्रीमती लीला देवी पुत्री श्री अनन्तीया राम हाल पत्नी श्री योगराज, निवासी दाडगी, डा0 सैन्ज,  
उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थिया श्रीमती लीला देवी पुत्री श्री अनन्तीया राम  
हाल पत्नी श्री योगराज, निवासी दाडगी, डा0 सैन्ज, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने  
प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा दाडगी में  
प्रार्थिया का नाम श्रीमती गीता पुत्री अनन्तीया है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, आठवीं कक्षा का शिक्षा  
प्रमाण-पत्र, आयकर प्रमाण-पत्र व ब्यानात बांशिनदगान देह व आधार कार्ड, राशन कार्ड प्रमाण-पत्र जो हाल  
पत्नी योगराज के अनुसार प्रार्थिया का नाम लीला देवी है जोकि सही है।

अतः इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 19-12-2022 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-11-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**In the Court of Bhanu Gupta (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),  
District Shimla, Himachal Pradesh**

Smt. Sukhbir Kaur w/o Late Sh. Iqbal Singh, V.P.O. Gharyala, Tehsil Patti, District  
Tarantaran Punjab . . . Applicant.

*Versus*

General Public

.. Respondent.

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Smt. Sukhbir Kaur w/o Late Sh. Iqbal Singh, V.P.O. Gharyala, Tehsil Patti, District Tarantaran Punjab has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of her husband namely IQBAL SINGH (DOD-16-05-1995) at IGMC in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 25th November, 2022.

Seal.

BHANU GUPTA (HPAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Bhanu Gupta (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),  
District Shimla, Himachal Pradesh**

Sh. Naveen Kumar s/o Late Sh. Roshan Lal, r/o 564/65, Sarna Cottage Shimla, Oak Wood Jakhoo, Shimla (H.P.) . . Applicant.

*Versus*

General Public .. Respondent.

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Sh. Naveen Kumar s/o Late Sh. Roshan Lal, r/o 564/65, Sarna Cottage Shimla, Oak Wood Jakhoo, Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of death of her mother namely SULAKHANI DEVI (DOD-03-10-2021) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 21st November, 2022.

Seal.

BHANU GUPTA (HPAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),  
District Shimla (H. P.)**

Lalita Rasali d/o Sh. Vinod Kumar, r/o Shanti Niwas, Ghora Chowki, Shimla

*Versus*

General Public .. Respondent.

Whereas Lalita Rasali d/o Sh. Vinod Kumar, r/o Shanti Niwas, Ghora Chowki, Shimla filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of herself named—Lalita Rasali d/o Sh. Vinod

Kumar, r/o Shanti Niwas, Ghora Chowki, Shimla in the record of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Lalita Rasali	Self	06-02-2002

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name and date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette failing which necessary orders will be passed.

Issued today 24-11-2022 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),  
District Shimla (H. P.)**

Sh. Richard Paul s/o Late Sh. Babu Ram, r/o Set No. 09, Shanti Sadan, Upper Cemetery Road, Sanjauli, Shimla, Himachal Pradesh

*Versus*

General Public

*. . Respondent.*

Whereas Sh. Richard Paul s/o Late Sh. Babu Ram, r/o Set No. 09, Shanti Sadan, Upper Cemetery Road, Sanjauli, Shimla, Himachal Pradesh filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of his daughter named—Neha Paul d/o Sh. Richard Paul, r/o Set No. 09, Shanti Sadan, Upper Cemetery Road, Sanjauli, Shimla, Himachal Pradesh in the record of Registrar Birth and Death, Municipal Corporation Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Neha Paul	Daughter	27-01-1991

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the name and date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death, Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette failing which necessary orders will be passed.

---

Issued today 22-11-2022 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (R), District Shimla (H.P.).*

---

### CHANGE OF NAME

I, Amra Gupta w/o Late Sh. Narender Lal Gupta, r/o V.P.O. Ghanahatti, Tehsil & District Shimla (H.P.) changed my name from Amra Vati/Amra Wati to Amra Gupta for all purposes in future. All concerns please note.

AMRA GUPTA

*w/o Late Sh. Narender Lal Gupta,  
r/o V.P.O. Ghanahatti,  
Tehsil & District Shimla (H.P.).*

---

### CHANGE OF NAME

I, Nimrat d/o Sh. Naresh Dutt Kaul, r/o Village Chhabar, P.O. Sathana, Tehsil Fatehpur, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Nimrat to Nitasha Sharma. Please note.

NIMRAT

*d/o Sh. Naresh Dutt Kaul,  
r/o Village Chhabar, P.O. Sathana,  
Tehsil Fatehpur, District Kangra (H.P.).*